

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 1966/चैत्र 5, 1888

No. 84]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 1966/CHAITRA 5, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 24th March 1966

S.O. 1024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the Defence of India Act, 1962 (51 of 1962), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-rule (1) of rule 25A of the Defence of India Rules, 1962 shall also be exercisable by the Government of Jammu and Kashmir/Rajasthan subject to the following conditions, namely:—

- (1) The State Government shall not specify any authority under the said sub-rule (1) unless that authority is of or above the rank of a Superintendent of Police;
- (2) The State Government and every authority specified by it under the said sub-rule (1) shall comply with such directions as the Central Government may, from time to time, issue.

[No. 9/1/66-X(Poll. I).]

ASOKA SEN, Jt. Secy.

